



**रामाज्ञा स्कूल नोएडा**  
**V / सिल्वर जोन 19-2018 /**  
**हिंदी ओलंपियाड अभ्यास-पत्रक 5**

**संकल्पना**

उचित विकल्प का चयन कीजिए ।

प्रश्न 1. दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द है -

- |          |          |
|----------|----------|
| (क) वाना | (ख) वाय  |
| (ग) चाबी | (घ) वानी |

प्रश्न 2. हमें भलाई का काम करना चाहिए । इस वाक्य में भलाई का संज्ञा-भेद है -

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| (क) जातिवाचक    | (ख) भाववाचक    |
| (ग) व्यक्तिवाचक | (घ) द्रव्यवाचक |

प्रश्न 3. वह राधा का भाई है । इस वाक्य में करक का भेद बताइए -

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| (क) कारण कारक | (ख) संबंध कारक  |
| (ग) कर्म कारक | (घ) अपादान कारक |

प्रश्न 4. दूध में कुछ गिर गया है । इस वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए-

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (क) अनिश्चयवाचक सर्वनाम | (ख) निश्चयवाचक सर्वनाम  |
| (ग) प्रश्नवाचक सर्वनाम  | (घ) सम्बन्धवाचक सर्वनाम |

प्रश्न 5. भिखारी को थोड़ा खाना दे दो । इस वाक्य में विशेषण का भेद बताइए ।

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| (क) परिमाण वाचक विशेषण | (ख) संख्यावाचक विशेषण |
| (ग) गुणवाचक विशेषण     | (घ) संकेतवाचक विशेषण  |

**अनुप्रयोग**

उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए ।

प्रश्न 6. चिड़िया उड़ रही है । इस वाक्य में \_\_\_\_\_ है ।

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| (क) अकर्मक क्रिया      | (ख) सकर्मक क्रिया |
| (ग) प्रेरणार्थक क्रिया | (घ) सरल क्रिया    |

प्रश्न 7. पिताजी मेरे लिए खिलौना लाएंगे । यह वाक्य \_\_\_\_\_ का है ।

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| (क) भूतकाल       | (ख) वर्तमान काल    |
| (ग) भविष्यत् काल | (घ) सामान्य भूतकाल |

प्रश्न 8. सोनम जोर-जोर से हँस रही है । इस वाक्य में क्रिया-विशेषण का भेद बताइए ।

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| (क) कालवाचक क्रिया-विशेषण  | (ख) स्थानवाचक क्रिया-विशेषण  |
| (ग) रीतिवाचक क्रिया-विशेषण | (घ) परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण |

प्रश्न 9. बच्चे इसलिए स्कूल जा रहे हैं ताकि वे वहाँ पढाई कर सकें । रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| (क) सरल वाक्य | (ख) मिश्र वाक्य |
|---------------|-----------------|

(ग) संयुक्त वाक्य

(घ) आज्ञार्थक वाक्य

### मूल्यपरक प्रश्न

प्रश्न 10. चार किलो चीनी ले आओ । विशेषण का भेद बताइए -

(क) संख्यावाचक विशेषण

(ख) परिमाणवाचक विशेषण

(ग) गुणवाचक विशेषण

(घ) संकेतवाचक विशेषण

प्रश्न 11. उस सभा में अनेक \_\_\_\_\_ थीं ।

(क) महिला

(ख) महिलाओं

(ग) महिलागण

(घ) महिलाएँ

प्रश्न 12. बंदरों ने सारी \_\_\_\_\_ फेंक दीं ।

(क) टोपियाँ

(ख) टोपियों

(ग) टोपिँ

(घ) टोपी

प्रश्न 13 .शुद्ध वाक्य चुनिए ।

(क) रानी का प्राण निकल गए

(ख) रानी के प्राण निकल गए

(ग) रानी का प्राण निकल गया

(घ) रानी को प्राण निकल गया

प्रश्न 14. यश शब्द का विलोम बताइए -

(क) अपयश

(ख) अयश

(ग) निर्यश

(घ) उपयश

प्रश्न 15. आग का समानार्थक शब्द होगा -

(क) ज्वाला

(ख) अनिल

(ग) नीर

(घ) पीयूष

### उच्च स्तरीय प्रश्न

प्रश्न 16. निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही (✓) का चिह्न लगाइए ।

जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थीं सीता ,

श्रीकृष्ण ने सुनायी, बंशी पुनीत गीता ।

गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया,

जग को दया सिखायी , जग को दिया दिखाया ।

वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी ,

वह जन्म भूमि मेरी , वह मातृ भूमि मेरी

1. रघुपति किसे कहा गया है ?

(क) राम को

(ख) शिव को

(ग) विष्णु को

(घ) सीता को

2. श्री कृष्ण ने किसका उपदेश दिया ?

(क) अहिंसा का

(ख) गीता का

(ग) सत्य का

(घ) इनमें से कोई नहीं

3. गौतम ने जन्म लेकर किसका सुयश बढ़ाया ?

(क) अपने राज्य का

(ख) अपने नगर का

(ग) अपनी मातृभूमि का

(घ) अपने वंश का

4. कवि ने अपनी मातृभूमि को बुद्ध भूमि क्यों कहा है ?

(क) गौतम बुद्ध के इस भूमि पर जन्म लेने के कारण

(ख) श्री कृष्ण के इस भूमि पर जन्म लेने के कारण

(ग) श्री राम के इस भूमि पर जन्म लेने के कारण

(घ) सीता के इस भूमि पर जन्म लेने के कारण

5. उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए -

(क) मेरे रघुपति

(ख) मेरी गीता

(ग) मेरी सीता

(घ) मेरी मातृभूमि